



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26—जनवरी 1, 2010 (पौष 5, 1931)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26—JANUARY 1, 2010 (PAUSA 5, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

अन्तरिक्ष विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर 2009

बैंगलूर-560 231, दिनांक 02 दिसम्बर 2009

सं. ए-43012/01/2006-प्रशा.-I--डॉ. सी. एस. केदार, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 79) ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पार्ष्विक अंतरण आधार पर महानिदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप 18 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव का पदभार छोड़ दिया है।

सुनील मिश्र, निदेशक

सं. 4/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोट में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस. कल्याणम	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.जी.	01.07.2009
2.	जी. अप्पण्णा	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.	01.07.2009
3.	जी. चन्द्रशेखरन	वैज्ञानिक/अभियंता-एस.एफ.	01.07.2009

सं. ए-19012/03/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री तारादत्त, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 83) को 18 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, निदेशक

1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
4.	एम. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.07.2009
5.	जी. विजयश्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	01.07.2009
6.	पी. मृत्युंजय राजु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.07.2009
7.	शेखर कुमार गंगोपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.07.2009
8.	डी. एस. चन्द्र प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.07.2009
9.	एम. वाई. नारायण राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.07.2009
10.	डॉ. कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	01.07.2009
11.	आर. शण्मुग सुन्दरम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
12.	जी. बालसुब्रमणियन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
13.	आर. रामकृष्ण मूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
14.	टी. रमणेश्वरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	09.07.2009
15.	पी. वेंकटरमणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
16.	रामकृष्णन बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
17.	पार्वती पिडुपर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
18.	मुदुपु अशोक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	09.07.2009
19.	संगीता के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
20.	सिजू बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009
21.	के. वलरमति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	01.07.2009

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 4/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीष धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में श्री पी. राम प्रसाद को क्रय एवं भण्डार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 26.08.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

दिनांक 08 दिसम्बर 2009

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आर. जे. मकवाना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.

1	2	3	4
2.	संध्या जी. सरोडे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	राजेशकुमार अजवालिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	पी. एम. ध्रुव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
5.	हरि शंकर गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
6.	एन. के. व्यास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
7.	चन्द्रशेखर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
8.	के. बी. शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
9.	एल. एम. राधोड	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	वैभव वत्स	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
11.	निशांत जैसवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
12.	राजेशकुमार चावड़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
13.	ए. पी. मजिठिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
14.	क्रिशन मोहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
15.	राजेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
16.	ध्रुपेश एस. शाह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	अशोक कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
2.	वाई. पी. राणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
3.	राजेश खण्डेलवाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
4.	डॉ. एस. एस. मंजुल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
5.	एम. सेन्थिल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
6.	एस. एस. सरकार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
7.	सी. एच. बी. नरसिंहा राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
8.	आर. बी. बवारिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
9.	एच. के. अरोरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
10.	डॉ. आर. नन्दकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
11.	डॉ. के. आर. मुरली	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
12.	समीर एस. पॉल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
13.	के. जी. दोमदिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
14.	गुरुदियो पास्वान	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
15.	रघुनाथ के. भट्टर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री ए. एस. किरण कुमार को अति विशिष्ट वैज्ञानिक के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	पूतम प्रदीप कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
2.	पी. दक्षिणामूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
3.	नीरज माथुर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
4.	एच. सी. सनन्दीय	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
5.	अजय कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
6.	आर. बी. उपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
7.	एम. एल. बधेका	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.एफ.
8.	सुनीता एम. प्रजापति	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
9.	हीरालाल एच. परमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.

1	2	3	4
10.	प्रसान्त दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
11.	गीता डी. पारिख	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
12.	राजीव कुमारन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
13.	जी. पी. जाला	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
14.	राजू दास	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.
15.	खैरुद्दिन काजी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.ई.

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.सी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. अजय कुमार सिंह
2. निधि सिंह
3. ए. एच. जनी
4. सवन एन. लखिया
5. अनिल एल. सोलंकी
6. डॉ. पुनित स्वरूप
7. नंदिनी देशपाण्डे
8. एस. एम. चौहान
9. नेहा गौर शर्मा
10. कसिफखान ए. पठाण
11. प्रखर श्रीवास्तव
12. प्रमोद
13. प्रोले वर्मा
14. टाइलर पियूषकुमार पी.
15. कीर्ति खत्री
16. माधव दास
17. नितिन कुमार

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्रीमती उरवी परग पोपट को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2009-I--अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों और दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ. राम रत्न	विशिष्ट वैज्ञानिक	28.02.2009
2.	ए. डी. दवे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	28.02.2009
3.	शोभा हर्षजित टक्कार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.03.2009
4.	आर. एम. मिस्त्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.05.2009

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री तनुज किरण त्रिवेदी, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 15.06.2009 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में डॉ. अंजली एस. बहुगुणा, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.06.2009 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

मनोहर एल. वाणियर, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. ए-12023/4/2003-प्रशा.-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 में यथानिर्धारित अधिवर्धिता की आयु होने पर, श्री अहमद फरीद, लेखा

सदस्य, आयकर अपील अधिकरण दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. के. शर्मा, अपर विधि सलाहकार

सं. ए-12023/19/1999-प्रशा.-III (वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री एन. एल. दास द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए दिनांक 08.07.2009 और 29.07.2009 के नोटिसों को स्वीकार करते हैं। श्री एन. एल. दास दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के अपराह्न को आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. के. शर्मा, अपर विधि सलाहकार

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 27 नवम्बर 2009

सं. के-13029/1/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री जसवंत सिंह और (2) न्यायविद् श्रीमती दया चौधरी को उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/2/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मेहताब सिंह गिल को, न्यायविद् श्री जगदीश सिंह केहर की नियुक्ति उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13032/2/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री जगदीश सिंह केहर को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2009

सं. के-13024/2/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद् श्री पादूर नटुविलिडम रवीन्द्रन को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. के-13016/1/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद् श्री टंकेश्वर प्रसाद शर्मा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13029/2/2009-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मुकुल मुद्गल को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. ए-32016/01/2006-एस.एस.ओ.--सचिव, गृह मंत्रालय, एतद्वारा सचिवालय सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ स्वागत अधिकारियों सर्वश्री एच. सी. जावेरिया, एस. के. नागपाल और दया नन्द, को दिनांक 03.12.2009 से नियमित आधार पर रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन के संशोधित वेतनमान पी.बी.-2 में पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं।

हरचरण कौर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. 14015/20/2008-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से

2--382 GI/2009

उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन सिविकम के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अधीन 10 अक्टूबर, 2009 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अधीन 19 नवम्बर, 2009 को अनुमोदित की गई सिविकम संवर्ग के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची जिसमें निम्नलिखित नाम हैं, को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची-2006

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्रीमती नलिनी जी. प्रधान	14.03.1955

चयन सूची-2007

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री के. टी. चंकापा	25.12.1955

चयन सूची-2008

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री के. के. प्रधान	14.12.1954
2.	श्रीमती निम येतेन्या	21.12.1954
3.	श्री ए. के. चेतारी	12.04.1955

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/20/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, सिविकम की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को चयन सूची वर्ष 2006, 2007 और 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिविकम संवर्ग में आर्बिट्रित करते हैं :--

चयन सूची-2006

अधिकारी का नाम
श्रीमती नलिनी जी. प्रधान

चयन सूची-2007

अधिकारी का नाम
श्री के. टी. चंकापा

## चयन सूची-2008

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री के. के. प्रधान
2.	श्रीमती निम येतेन्या
3.	श्री ए. के. चेतरी

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2009

सं. 7/2009 (फा. सं. ए-12026/2/2009-सी.ए.)--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री जे. अल्बर्ट, भा.रा.से. (87044) को दिनांक 08 दिसम्बर, 2009 पूर्वाह्न से 31.05.2011 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, चेन्नई के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

## आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

सं. ए. 12011/5/2001-प्रशा. I ए--राष्ट्रपति, प्रो. कौशिक बासु को 08 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से रुपए 80,000/- (नियत) के वेतनमान में संविदा आधार पर अधिवर्षिता प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

सागर मेहरा, उप सचिव

## वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. ए. 19012/293/2009-स्था. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के उपनिदेशक (राजभाषा) श्री सुरेन्द्र मोहन नय्यर को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में अगले आदेश होने तक 01 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

## व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

सं. ए. 11019/4/2009-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री विनोदकुमार रविशंकर त्रिवेदी को दिनांक 30 नवम्बर,

2009 की पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर में प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

सं. ए. 12023/2/2009-प्रशा. IV-सीएस--राष्ट्रपति, श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख को दिनांक 27 नवम्बर, 2009 की पूर्वाह्न से उनकी आयु 67 वर्ष होने तक अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल गठित/चालू होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में कंपनी विधि बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. बी. कौशिश, अवर सचिव

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

सं. 2(18)/2009-स्था.--इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री राकेश भटनागर, अवर सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2008-सी एस-I(डी) द्वारा उनका नाम नियमित आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2007 की सलेक्ट लिस्ट में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 (अपराह्न) से नियमित आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री राकेश भटनागर को उनके द्वारा इस समय धारित अवर सचिव के पद के वैयक्तिक उन्नयन द्वारा उप सचिव के रूप में उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद यह पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार अवर सचिव स्तर पर प्रचालित होगा।

पी. के. मित्तल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2009

सं. 5(8)/2009-स्था.--इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अधिकारी, उप सचिव, श्रीमती जया दुबे, का यूनिफ़ आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पे-बैंड 37,400--67,000/- + 8,700/- रुपए (ग्रेड पे) में सहायक महा निदेशक (एडीजी) के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें 16 नवम्बर, 2009 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है। तथा उन्हें यूआईडीआई, नई दिल्ली में नया कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दी जाती है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. ए. 38018/03/2009-स्था.--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में तदर्थ आशुलिपिक ग्रेड 'ए और बी' (समामेलित) (निजी सचिव) श्रीमती सरोजिनी दत्ता 30 नवम्बर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

सं. पृविमं/31/05/2007-स्था.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (पे-बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. (ग्रेड-पे) को संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 19 नवम्बर, 2009 के पत्र सं. एफ 1/62(4)/2009-ए.पी.-3 के अनुसार स्व-स्थाने आधार पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ए' के वैज्ञानिक 'बी' ग्रेड (पे-बैंड-3, 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. (ग्रेड-पे) में पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम
1.	श्री अशोक कुमार साहा
2.	श्री एहताश्म उल हक
3.	श्री बीरेंद्र कुमार ठाकुर
4.	श्रीमती शैला मिन्हास
5.	श्री वी. रामानाथन

वसुधा गुप्ता, निदेशक (स्थापना)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 12 नवम्बर 2009

सं. 03/02/2009-पी-III (. )--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिकों "ई" (वेतन बैंड-4 में 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन-8,700/- रु.) को सुनम्य पूरक स्कीम (एफसीएस) के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक "एफ" के रूप में वेतन बैंड-4 में 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड वेतन 8,900/- रुपए में 12 अक्टूबर, 2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं :-

1. डॉ. सुजाता अरोड़ा
2. डॉ. एम. होता

बी. एस. भंडारी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 4 फरवरी 2009

सं. 18012/05/2005-भा.व.से-II--केन्द्र सरकार, आईएफएस (परिवीक्षा) नियमावली, 1968 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु संवर्ग में उत्पन्न निम्नलिखित आईएफएस अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करती है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	आईएफएस में नियुक्ति की तिथि	प्रस्ताविक पुष्टि की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री वी. सी. बलराज	06.10.2004	06.10.2005
2.	श्री के. मनीकैम	06.10.2004	06.10.2005
3.	श्री ए. सोमासुन्दरम	06.10.2004	06.10.2005
4.	श्री ए. वी. मोहन	06.10.2004	06.10.2005
5.	श्री वी. सुन्दराराजू	28.09.2005	28.09.2006
6.	श्री एस. शेनबागमूर्ति	28.09.2005	28.09.2006
7.	श्री राकेश कुमार जगेनिया	19.08.2002	19.08.2005

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2009

सं. 17013/12/2008-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के नियम 9 के साथ पठित, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल वन राज्य सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में वर्ष 2008 की चयन सूची के आधार पर 14 सितम्बर, 2009 से सहर्ष नियुक्त करती हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम (5) के उपनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग आबंटित करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	अजाय कुमार दास	01.03.1965
2.	समीर गजामेर	18.09.1966

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

सं. ए-12025/164/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. योगेन्द्र नाथ मौर्या को दिनांक 16.07.2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पी बी-3 (15,600--39,100/-) + 5,400/- रु. (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. योगेन्द्र नाथ मौर्या को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन

चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. योगेन्द्र नाथ मौर्या दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2009

सं. ए-12025/161/2007-सीएचएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपक कुमार महाराणा को दिनांक 29.04.2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पी बी-3 (15,600—39,100/-) + 5,400/- रु. (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. दीपक कुमार महाराणा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. दीपक कुमार महाराणा दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. ए-12025/25/08-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सामिक भट्टाचार्य को दिनांक 30.10.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-सर्वर्ग में प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 नवम्बर 2009

सं. जेड-28016/13/08-II-एसएसएस-राष्ट्रपति, श्री अमिया कुमार जेना (आई डी ए एस, 1991), सी जी डी ए को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के अंतर्गत पी बी-4 में 37,400---67,000/- रुपए पे बैंड और 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में भुवनेश्वर में एम्स जैसी संस्था की परियोजना एकक में दिनांक 3.11.2009 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री जेना दिनांक 3 नवम्बर, 2009 से 20 नवम्बर, 2009 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन में अस्थाई इयूटी पर तैनात रहेंगे।

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन और सेवा की शर्तों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-II) के संदर्भानुसार विनियमित किया जाएगा।

4. श्री जेना के वेतन और भत्तों को वर्ष 2009-10 संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए मांग सं. 46 के संबंध में बजट

शीर्ष : 2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ; 05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ; 105--एलोपैथी ; 41--एम्स जैसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों-सहशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन 0001-उन्नयन (योजनागत) को डेबिट किया जाएगा।

विनायक एम. प्रसाद, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. ए-38016/10/2009-स्था.-III--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ कलाकार, श्री चांद कुमार चौधरी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. 4-4/2008-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप मजूमदार, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, नागपुर को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान (पूर्व संशोधित) में विस्तार निदेशालय में संयुक्त निदेशक (विस्तार), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित के पद पर 4 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती हैं।

स्मृति शरण, निदेशक (विस्तार)

दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. 4-4/2007-विस्तार--राष्ट्रपति, श्रीमती वी. नटराजन, क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री, विस्तार निदेशालय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान (पूर्व संशोधित) में उसी निदेशालय में उप-निदेशक (प्रशासन), सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित के पद पर 5 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती हैं।

स्मृति शरण, निदेशक (विस्तार)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. 27-2856/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. अहलुवालिया, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2009

सं. 4-38/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री संगीता वर्मा को दिनांक 20 नवम्बर, 2009 की पूर्वाह्न से पे-बैंड-4, 37,400-67,000/- रुपये तथा 10,000/- रुपये के ग्रेड पे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों संबंधी विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 के आदेश संख्या 13016/2/2009-आई.ई.एस. (संख्या टी-33/2009) के अनुसरण में जारी की जाती है।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2009

सं. 22-16/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 21 अक्टूबर, 2009 के आदेश सं. 27/39/2009-ई.ओ. (एस.एम.-I) के अनुपालनार्थ, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव, सुश्री विजय मूर्ति, आई.ए. एण्ड एस. (78), को 17 नवम्बर, 2009 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त करते हैं।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. 15-03/2005-प्रशा.(भाग)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 23 अक्टूबर, 2009 के आदेश सं. 36/44/2009-ई.ओ. (एस.एम.-I) के अनुपालनार्थ, श्री स्वरूप नंदक्योलयार, आई.ए. एण्ड एस. (82) को 01 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से 18 जुलाई, 2012 तक, अर्थात् उनके द्वारा 7 वर्ष की संयुक्त प्रतिनियुक्ति अवधि पूरा करने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. पी.एफ./109/एन.आई.सी./2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री सुबीर राय, कर्मचारी कोड सं. 109 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-पश्चिम बंगाल राज्य एकक, कोलकाता में वैज्ञानिक "एफ" के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 30 नवम्बर, 2009 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

## मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. 16(4)/2008-पी.ए.(टी.ए.)--राष्ट्रपति महोदय, द्वारा इस निदेशालय के श्री डी. दामोदरन वैज्ञानिक 'डी' को जोकि पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे 7,600/- के वेतनमान में कार्यरत हैं, पे बैंड-4 रु. 37,400--67,000 + ग्रेड पे 8,700/- के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर दिनांक 09.11.2009 (पूर्वाह्न) से उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2005 की रिट याचिका (सी) 7080 के संबंध में दिनांक 26.09.2008 को दिए गए निर्णय के संदर्भ में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई विशेष अवकाश याचिका के अंतिम परिणाम के अध्याधीन नियुक्त किया है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

सं. 16(4)/2008-पी.ए.(टी.ए.)--राष्ट्रपति, महोदय द्वारा इस निदेशालय के श्री देवाशीष जैना, वैज्ञानिक 'बी' को जोकि पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800 + ग्रेड पे 5,400/- के वेतनमान में कार्यरत हैं, पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 6,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर दिनांक 09.11.2009 (पूर्वाह्न) से उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2005 की रिट याचिका (सी) 7080 के संबंध में दिनांक 26.09.2008 को दिए गए निर्णय के संदर्भ में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई विशेष अवकाश याचिका के अंतिम परिणाम के अध्याधीन नियुक्त किया है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2009

सं. ई.आर.बी.-I/2009/2/73--राष्ट्रपति जी, श्रीमती ऊषा माथुर, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.ले.से., विस एवं मुलेधि (सी)/उत्तर रेल को 75,500--80,000/- रुपये के ग्रेड में पदोन्नति होने पर 01.11.2009 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के.बी.एल. मिश्र, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 8 दिसम्बर 2009

सं. ई. (जी.पी.)/2007/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' अधिकारी को उल्लिखित रेलवे पर 21.04.2009 से भारतीय रेल इंजीनियर सेवा (आई.आर.एस.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

## 2008-09 के लिए पैनाल

अधिकारी का नाम

मध्य रेलवे

1. श्री एम. के. अग्रवाल\*

\*श्री एम. के. अग्रवाल, 26.11.2009 से ही कनिष्ठ  
वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

के.बी.एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 11 दिसम्बर 2009

सं. ई.आर.बी.-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी  
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.11.2009 के अपराह्न से सेवा से  
सेवानिवृत्त हो गए हैं :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| (i) श्री एस. के. कटार     | उप निदेशक (राजभाषा) |
| (ii) श्री सी. एस. बत्रा   | अनुभाग अधिकारी      |
| (iii) श्री रामेश्वर ठाकुर | अनुभाग अधिकारी      |
| (iv) श्रीमती विजय चड्ढा   | अनुभाग अधिकारी      |

के.बी.एल. मित्तल, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2009

सं. ए-32014/1/2009-ई-I (बी)--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन  
मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.09.2009 के का.  
जा. सं. 5/12/2008-सीएस-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक  
सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) की 2006 की चयन  
सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, जनजातीय  
मामले मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग की आशुलिपिक ग्रेड 'सी'  
श्रीमती विश्वा एलावादी को 9,300--34,800/- रु. के  
पे बैंड + 4,800 रु. के ग्रेड पे में दिनांक 17.11.2009 (पूर्वाह्न) से सड़क  
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर निजी सचिव के  
पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. 23/2009 (फाईल सं. ए-32013/3/2008-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति,  
केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी  
के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा  
के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी [मुख्य इंजीनियर/सदस्य सचिव (क्षेत्रीय विद्युत  
समिति)/सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड] में रु. 18,400-500-22,400/- के

संशोधन पूर्व वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से  
अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती नीरजा माधुर	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
2.	एस. के. कौल	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
3.	मेजर सिंह	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
4.	रजिन्दर परशाद	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
5.	ए. के. रामपाल	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
6.	आर. के. रसतोगी	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
7.	के. एन. गर्ग	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
8.	बी. के. जैन	31 अगस्त 2009 (पूर्वाह्न)
9.	एन. सी. जैन	01 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह्न)
10.	पी. राऊत	01 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह्न)

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2009

सं. 24/2009-(मि.सं. ए-38012/1/2008-प्रशा. एक)--अधिवर्षिता  
की आयु प्राप्त होने पर, श्री डी. एस. अरोड़ा जोकि केन्द्रीय विद्युत  
प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में मुख्य  
इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 नवम्बर  
2009 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2009

सं. 38/09 (फाईल सं. 2/11/2009-प्रशासन-II)--राष्ट्रपति, श्री  
मेडिडी रवि कांत आई.ए.एस. (केरल : 1986) को, 9 दिसम्बर, 2009  
के पूर्वाह्न से, रुपए 37,400-67,000/- (पी.बी.-4) के वेतन बैंड  
सहित 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में, उनके केन्द्रीय कार्यकाल की शेष  
अवधि अर्थात् 20.06.2012 तक के लिए अथवा अगले आदेशों के होने  
तक, जो भी पहले हो, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में,  
नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2009

सं. 39/2009 (फा.सं. 2/13/2009-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री अनिल  
कुमार, आई. ए. एस. (एनएल : 1976) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय

को दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के पूर्वह से विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2009

सं. ए-32013/3/2009-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के का. सं. 5/16/2007-सीएस-I में निहित आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) हेतु 2003 के चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने पर राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति चयन सूची वर्ष 2003 में नियमित आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I में करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.	नियुक्ति की मान्य तिथि/नियुक्ति की वास्तविक तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
1.	जोगिन्द्र सिंह दुआ	4187	01.07.2003/ 29.09.1999	दिनांक 31.03.2008 को सेवा निवृत्त
2.	नन्द लाल उपाध्याय	4205	01.07.2003/ 20.08.1999	दिनांक 30.11.2008 को सेवा निवृत्त
3.	डब्ल्यू. एन. मैसी	4229	01.07.2003/ 20.08.1999	
4.	आर. एस. फौगाट	4251	01.07.2003/ 20.08.1999	
5.	पी. के. वर्मा	4285	01.07.2003/ 16.09.1999	
6.	लीला चन्द्रन	4302	01.07.2003/ 20.08.1999	
7.	वी. पी. गुप्ता	4307	01.07.2003/ 20.08.1999	
8.	सोम नाथ गुप्ता	4332	01.07.2003/ 20.08.1999	
9.	मिरनाल राय चौधरी	4407	01.07.2003/ 20.08.1999	
10.	गुलशन लाल	4516	01.07.2003/ 20.08.1999	
11.	ओ. पी. डोगरा	4534	01.07.2003/ 31.08.1999	
12.	जोन मैथ्यू	4541	01.07.2003/ 20.08.1999	
13.	मैलविन मार्टिन	4546	01.07.2003/ 20.08.1999	

1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
14.	जी. एच. रत्ना	4553	01.07.2003/ 20.08.1999	
15.	के. रामाचन्द्रन	4593	01.07.2003/ 20.08.1999	
16.	यू. विश्वनाथम	4631	01.07.2003/ 20.08.1999	
17.	लाजपत राय गुप्ता	4697	01.07.2003/ 28.06.2000	
18.	के. एल. भाटिया	4723	01.07.2003/ 20.08.1999	
19.	एन. टी. जोसफ	4790	01.07.2003/ 20.08.1999	
20.	बिमल कुचूर	5019	01.07.2003/ 20.08.1999	
21.	सरोज जयसिया	5023	01.07.2003/ 20.08.1999	
22.	अनिल कुमार	5065	01.07.2003/ 29.03.2001	
23.	मनीश बैजल	5106	01.07.2003/ 19.07.2005	
24.	अशोक कुमार	5404	01.07.2003/ 24.08.2005	
25.	सुरेश चन्द्रा	5500	01.07.2003/ 31.10.2005	
26.	जैम्स बंलालहलिर	5548	01.07.2003/ 20.08.1999	
27.	एस. एल. मीणा	5739	01.07.2003/ 16.04.2004	
28.	आर. पी. मीणा	5740	01.07.2003/ 16.04.2004	
29.	वी. के. राजन	5871	01.07.2003/ 07.08.2007	
30.	ए. के. दास	5877	01.07.2003/ 16.07.2007	डीडीए में प्रतिनियुक्ति पर
31.	सुरेन्द्र सिंह	5926	01.07.2003/ 07.11.2007	
32.	सुरत सिंह	6074	01.07.2003/ 21.01.2008	

2. उक्त चयन सूची में शामिल उपर्युक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में उनके नाम दिए गए हैं न कि ग्रेड-I में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि से। उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्ति दिल्ली उच्च

न्यायालय में सीडब्ल्यूसी सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां अनुमोदित सेवा के उद्देश्य तथा वैचारिक आधार पर अवर सचिव के रूप में वेतन के निर्धारण हेतु दिनांक 01.07.2003 से प्रभावी की गई है, मान्य है। तथापि, वास्तविक लाभ अधिकारियों के सीएसएस के अवर सचिव के ग्रेड हेतु नियुक्त हुए थे/हैं के तिथि से उपलब्ध होगी।

4. उपर्युक्त अधिकारी उनकी अवर सचिव पद पर नियुक्ति की वास्तविक तिथि से उनके वेतन के पुनः निर्धारण के कारण बकाया राशि के हकदार होंगे तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर एफआर-22 के प्रावधान के तहत वेतन के निर्धारण हेतु विकल्प के फायदे के हकदार होंगे। तथापि, ऐसे अधिकारी जिसकी पदोन्नति दिनांक 1 जुलाई, 2003 से पहले तदर्थ अवर सचिव के रूप

में की गई थी तथा जिन्होंने दोहरे विकल्प का लाभ उठाया है, विकल्प का पुनः उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 दिसम्बर 2009

सं. 11019/1/2006-प्रशा.-I (भाग)--राष्ट्रपति, श्री एम. ई. कुट्टी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के डीओपीटी के का. जा. सं. 20/51/2008-सीएस-II की अनुपालना में मंत्रालय में सीएसएसएस संवर्ग में दिनांक 28.10.2009 (पूर्वाह्न) से 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित 37,400—67,000/- रु. के वेतनमान/वेतन बैंड-4 में अगले आदेशों तक प्रधान स्टाफ ऑफिसर (पीएसओ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 18th November 2009

No. A-43012/01/2006-Ad-I.—Consequent upon his appointment as Director General, Employees' State Insurance Corporation under Ministry of Labour and Employment on lateral transfer basis, Dr. C. S. Kedar, IAS (KN : 79) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 18th November, 2009.

SUNIL MISHRA, Dir.

No. A-19012/03/2009-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri Taradatt, IAS (OR : 83) as Joint Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 18th November, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SUNIL MISHRA, Dir.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 2nd December 2009

No. 4/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
1	2	3	4
	Shri/Smt/Kum.		
1.	S. Kalyanam	Scientist/Engineer-SG	01.07.2009
2.	G. Appanna	Scientist/Engineer-SF	01.07.2009
3.	G. Chandrasekaran	Scientist/Engineer-SF	01.07.2009
4.	M. Parsad	Scientist/Engineer-SF	01.07.2009
5.	G. Vijayasri	Scientist/Engineer-SF	01.07.2009
6.	P. Mrutyunjaya Raju	Scientist/Engineer-SE	01.07.2009
7.	Sekhar Kumar Gangopadhyay	Scientist/Engineer-SE	01.07.2009
8.	D. S. Chandra Prakash	Scientist/Engineer-SE	01.07.2009
9.	M. Y. Narayana Rao	Scientist/Engineer-SE	01.07.2009
10.	D. Kumar	Scientist/Engineer-SE	01.07.2009
11.	R. Shanmuga Sundaram	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
12.	G. Balasubramanian	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
13.	R. Ramakrishna Murthy	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
14.	T. Ramaneswari	Scientist/Engineer-SD	09.07.2009
15.	P. Venkataramana	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009

1	2	3	4
16.	Ramakrishnan V.	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
17.	Parvathi Piduparthi	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
18.	Mudupu Ashok	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
19.	Sangeetha K.	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
20.	Siju V.	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009
21.	K. Valarmathi	Scientist/Engineer-SD	01.07.2009

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 4/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri P. Rama Prasad as Purchase and Stores Officer in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 26.08.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

The 8th December 2009

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt/Kumari		
1.	R. J. Makhwana	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
2.	Sandhya G. Sarode	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
3.	Rajeshkumar Ajwalya	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	P. M. Dhruva	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
5.	Hari Shanker Gupta	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
6.	N. K. Vyas	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
7.	Chandrashekhar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
8.	K. B. Shah	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	L. M. Rathod	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	Vaibhav Vats	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11.	Nishant Jaiswal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12.	Rajeshkumar Chavda	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13.	A. P. Majithiya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
14.	Krishan Mohan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15.	Rajendra Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
16.	Dhruvesh S. Shah	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application

Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1.	Shri/Smt/Kumari Ashok Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
2.	Y. P. Rana	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
3.	Rajesh Khandelwal	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
4.	Dr. S. S. Manjal	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5.	M. Senthil Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6.	S. S. Sarkar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
7.	Ch. V. Narasimha Rao	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
8.	R. B. Bavaria	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
9.	H. K. Arora	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
10.	Dr. R. Nandakumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
11.	Dr. K. R. Murali	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
12.	Samir S. Pai	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
13.	K. G. Domadia	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
14.	Gurudeo Paswan	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SF
15.	Raghuvaran K. Bhattar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SF

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri A. S. Kiran Kumar as Distinguished Scientist in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1.	Shri/Smt/Kumari Punam Pradeep Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
2.	P. Dakshinamurthy	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Neeraj Mathur	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4.	H. C. Sanadiya	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	Ajay Kumar	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6.	R. B. Upadhyay	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

1	2	3	4
7.	M. L. Badheka	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
8.	Sunita M. Prajapati	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9.	Hiralal H. Parmar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	Prasanta Das	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
11.	Geeta D. Parikh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SF
12.	Rajiv Kumaran	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
13.	G. P. Jhala	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	Raju Das	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
15.	Khairunnisa K. Kazi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientist/Engineers-SD in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2009 and until further orders :—

- Shri/Smt/Kum.
1. Ajay Kumar Singh
  2. Nidhi Singh
  3. A. H. Jani
  4. Savan N. Lakhia
  5. Anil L. Solanki
  6. Dr. Puneet Swaroop
  7. Nandini Deshpande
  8. S. M. Chauhan
  9. Neha Gaur Sharma
  10. Kasifkhan A. Pathan
  11. Prakhar Srivastava
  12. Pramod
  13. Prolay Verma
  14. Tailor Piyushkumar P.
  15. Kriti Khatri
  16. Madhav Das
  17. Nitin Kumar

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I.—The President is pleased to appoint Smt. Urvi Parag Popat as Scientists/Engineers-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(2)2009-I--Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :--

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. Ram Rattan	Outstanding Scientist	28.02.2009
2.	A. D. Dave	Scientist/Engineer-H	28.02.2009
3.	Shobha Harshjit Thakkar	Scientist/Engineer-SF	31.03.2009
4.	R. M. Mistry	Scientist/Engineer-SF	31.05.2009

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(2)2009-I--The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Tanuj Kiran Trivedi, Scientist/Engineer-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 15.06.2009.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(2)2009-I--Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Dr. Anjali S. Bahuguna, Scientist/Engineer-SG in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 01.06.2009.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 30th November 2009

No. A-12023/4/2003-Admn. III (LA)--On attaining the age of superannuation as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri Ahmed Fareed, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal has retired from service with effect from the afternoon of 14th October, 2009.

M. K. SHARMA, Addl. Legal Adviser

No. A-12023/19/1999-Admn. III (LA)--The President is pleased to accept the notices of voluntary retirement dated 08.07.2009 and 29.07.2009 tendered by Shri N. L. Dash, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal. Shri N. L. Dash stands voluntarily retired from the post of Judicial Member in the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the afternoon of 24th November, 2009.

M. K. SHARMA, Addl. Legal Adviser

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 27th November 2009

No. K-13029/1/2009-US. II--In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Jaswant Singh and (2) Shrimati Justice Daya Chaudhary, Additional Judges of the Punjab & Haryana High Court, to be Judges of the Punjab & Haryana High Court, with effect from the dates they assume charge of their offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-11019/2/2009-US. II--In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Mehtab Singh Gill, seniormost Judge of the Punjab and Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Jagdish Singh Khehar relinquishes charge of the office of the Acting Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court consequent upon his appointment as Chief Justice of the Uttarakhand High Court.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13032/2/2009-US. II--In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Jagdish Singh Khehar, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be the Chief Justice of the Uttarakhand High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 3rd December 2009

No. K-13024/2/2009-US. I--In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Padoor Natuvileedom Ravindran, Additional Judge of the Kerala High Court, to be Judge of the Kerala High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 4th December 2009

No. K-13016/1/2009-US. II--In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Tankeshwar Prasad Sharma, Additional Judge of the Chhattisgarh High Court, to be a Judge of the Chhattisgarh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13029/2/2009-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Mukul Mudgal, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABIHISHEK, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th December 2009

No. A-32016/01/2006-SSO—Secretary in the Ministry of Home Affairs hereby appoints S/Shri H. C. Javeria, S. K. Nagpal and Daya Nand, Senior Reception Officers in the Secretariat Security Organisation as Supervisor on a regular basis in the revised Pay Scale of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/- with effect from 03.12.2009.

HARCHARAN KAUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 11th December 2009

No. 14015/20/2008-AIS-(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select Lists of State Civil Service officers of Sikkim Cadre containing the following names prepared on 10th October, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 19th November, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Sikkim under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List years 2006, 2007 and 2008 : —

##### SELECT LIST-2006

Name of the Officer	Date of Birth
Smt. Nalini G. Pradhan	14.03.1955

##### SELECT LIST-2007

Name of the Officer	Date of Birth
Shri K. T. Chankapa	25.12.1955

##### SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri K. K. Pradhan	14.12.1954
2.	Smt. Nini Yethenpa	21.12.1954
3.	Shri A. K. Chettri	12.04.1955

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/20/2008-AIS-(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Sikkim to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List years 2006, 2007 and 2008, on probation until further orders and to allocate them to Sikkim Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

##### SELECT LIST-2006

Name of the Officer

Smt. Nalini G. Pradhan

##### SELECT LIST-2007

Name of the Officer

Shri K. T. Chankapa

##### SELECT LIST-2008

Sl. No. Name of the Officer

1. Shri K. K. Pradhan
2. Smt. Nini Yethenpa
3. Shri A. K. Chettri

S. S. SHUKLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 14th December 2009

No. 7/2009 (F. No. A-12026/2/2009-CA)—The President is pleased to appoint Shri J. Albert, IRS (87044), an officer of Indian Revenue Service as Competent Authority & Administrator, Chennai under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, with effect from the forenoon of 8th December, 2009 till 31.05.2011 or until further orders whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 8th December 2009

No. A-12011/5/2001-Admn.IA—The President is pleased to appoint Professor Kaushik Basu as Chief Economic

Adviser in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) on contract basis with effect from the forenoon of 08.12.2009 and till superannuation or until further orders, whichever is earlier.

SAGAR MEHRA, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 4th December 2009

No. A-19011/293/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Surender Mohan Nayyar, Deputy Director (OL) of the CSOI S as Joint Director (OL) of CSOLS in Department of Financial Services, Ministry of Finance, on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 1st December, 2009 and until further orders.

AMRIK SINGH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 10th December 2009

No. A-11019/4/2009-EG—The President is pleased to appoint Shri Vinodkumar Ravishankar Trivedi of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur in the scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 30.11.2009 (F.N.) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th December 2009

No. A-12023/2/2009-Admn.IV/CS—The President is pleased to appoint Shri Dilip Raosaheb Deshmukh, as Chairman, Company Law Board in the scale of Rs. 80,000/- (fixed) w.e.f. forenoon of 27.11.2009 till he attains the age of 67 years or till the National Company Law Tribunal is constituted/operationalised or until further orders, whichever is the earliest.

J. B. KAUSHISH, Under Secy.

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 8th October 2009

No. 2(18)/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2007 for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the CSS on regular basis vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 4/9/2008-CS.I(D) dated the 5th October, 2009, Shri Rakesh Bhatnagar, Under Secretary of the CSS in the cadre of Ministry of Steel is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis for the Select List year w.e.f. 05.10.2009 (AN).

2. Shri Rakesh Bhatnagar has been appointed as Deputy Secretary by personal up-gradation of the post of Under Secretary currently held by him as Deputy Secretary up to the date of his superannuation. Thereafter the post will be operated at Under Secretary level as per the orders of DOP&T.

P. K. MITTAL, Under Secy.

New Delhi-110107, the 16th November 2009

No. 5(8)/2008-Estt.—On her selection as Assistant Director General (ADG) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) on deputation basis in Unique Identification Authority of India, Ms. Jaya Dubey, a Central Secretariat Service (CSS) officer, Deputy Secretary, Ministry of Steel is relieved of her duties with effect from the forenoon of 16th November, 2009 with advise to take up her new assignment in the UIDAI, New Delhi.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 30th November 2009

No. A-38018/03/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation, Smt. Sarojini Datta, Steno Grade 'A & B' (Merged) (Private Secretary) Ad-hoc, Department of Scientific and Industrial Research stands retired from the Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2009.

S. K. KALRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 8th December 2009

No. MoES/31/05/2007-Estt.—The President is pleased to promote the following Senior Technical Assistants (PB-2 Rs. 9,300—34,800/-) + 4,600/- (Grade Pay) to the grade of Scientist 'B' (PB-3 Rs. 15,600—39,100/-) + 5,400/- (Grade Pay) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis as per UPSC letter No. F.1/62(4)/2009-AP-3 dated 19th November, 2009 with effect from 19.11.2009 and until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Shri A. K. Saha
2.	Shri E-Ul Haque
3.	Shri B. K. Thakur
4.	Smt. Shyla Minhas
5.	Shri V. Rarnanathan

VASUDHA GUPTA, Dir. (Estt.)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 12th November 2009

No. 03/02/2009-P-III(—)---The President is pleased to appoint the following Scientists "E" (Pay Band-4 Rs. 37,400---67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/-) in the Ministry of Environment and Forests as Scientist "F" in the scale of pay of Rs. 37,400---67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,900/- in Pay Band-4, on promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS), with effect from 12.10.2009 (forenoon) until further orders :---

1. Dr. Sujata Arora

2. Dr. M. Hota

B. S. BHANDARI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 4th November 2009

No. 18012/05/2005-IFS-II - In exercise of the powers conferred by the Rules 3(1), 3(2) & 3(3) of the IFS (Probations) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following IFS Officers borne on Cadre of the Tamil Nadu in the Indian Forest Service, with effect from the dates shown against each :---

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment IFS	Proposed date of confirmation
1.	Sh. V. C. Balraj	06.10.2004	06.10.2005
2.	Sh. K. Manickam	06.10.2004	06.10.2005
3.	Sh. A. Somasundaram	06.10.2004	06.10.2005
4.	Sh. A. V. Mohan	06.10.2004	06.10.2005
5.	Sh. V. Sundaraju	28.09.2005	28.09.2006
6.	Sh. S. Shenbagamurthy	28.09.2005	28.09.2006
7.	Sh. Thiru. Rakesh Kumar Jagenia	19.08.2002	19.08.2005

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 16th September 2009

No. 17013/12/2008-IFS.H- - In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with effect from 14th September, 2009, the following two officers of the State Forest Service of West Bengal to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2008 and allocate

them to West Bengal Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :---

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Ajoy Kumar Das	01.03.1965
2.	Samir Gajamer	18.09.1966

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 8th December 2009

No. A. 12025/164/2007-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Yogendra Nath Mauyra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service, in the Pay Scale of Pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (grade pay)] in a temporary capacity with effect from the forenoon 16.07.2008 until further orders. Dr. Yogendra Nath Mauyra is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Yogendra Nath Mauyra shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 10th December 2009

No. A. 12025/161/2007-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Kumar Maharana to the Medical Officers Grade of the Central Health Service, in the scale of pay of PB-3 [Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (Grade Pay)] in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29.04.2008 until further orders. He is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. He shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi-110108, the 11th December 2009

No. A. 12025/25/08-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sameek Bhattacharya to the post of Assistant Professor in the speciality of Plastic Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 30.10.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th November 2009

No. Z-28016/13/2008/II-SSH—The President is pleased to appoint Shri Amiya Kumar Jena (IDAS, 1991), CGDA to the post of Financial Adviser on deputation basis in the Project Cell of AIIMS-like Institution at Bhubaneswar in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the PB-4, under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) for a period of 3 years with effect from 03.11.2009 (FN), or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Jena will remain posted on temporary duty in the Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi w.e.f., 3rd November, 2009 to 20th November, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

3. The pay and conditions of service on deputation basis will be regulated in terms of DOPT's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994, as amended from time to time.

4. The pay and allowances of Shri Jena will be debited to the Budget Head; 2210-Medical and Public Health; 05-Medical Education, Training & Research; 105-Allopathy; 41-Establishment of AIIMS Type Super Speciality Hospitals-cum-Teaching Institution & Upgrading of State Govt. Hospitals; 00 01-Salaries (Plan) in respect of Demand No. 46 for Department of Health & Family Welfare for the year 2009-10.

VINAYAK M. PRASAD, Dir.

New Delhi, the 30th November 2009

No. A. 38016/10/2009/E.III.—On attaining the age of superannuation, Shri Chand Kr. Chaudhary, Sr. Artist, in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November 2009.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

---

 MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 4th December 2009

No. 4-4/2008-Extn.—The President is pleased to appoint Shri Pradip Majumdar, Assistant Director, Regional Centre of Organic Farming, Nagpur as Joint Director (Extension) G.C.S., Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Pre-revised) in the Directorate of Extension, on deputation basis, for a period of three years, with effect from the forenoon of 4th November, 2009 or until further orders whichever is earlier.

SMRITI SHARAN, Dir. (Extension)

The 9th December 2009

No. 4-4/2007-Extn.—The President is pleased to appoint Smt. V. Natarajan, Regional Home Economist, Directorate of Extension as Deputy Director (Administration), G.C.S., Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Pre-revised) in the same Directorate on deputation basis, for a period of three years, with effect from the forenoon of 5th November, 2009 or until further orders whichever is earlier.

SMRITI SHARAN, Dir. (Extension)

New Delhi, the 9th December 2009

No. 27-2856/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Ahluwalia, CSS as Deputy Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the forenoon of 8th December, 2009 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

---

 MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th November 2009

No. 4-38/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Sangeeta Verma in the Ministry of Women and Child Development as Economic Adviser in the Pay Band of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 20th November, 2009.

2. This issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 13016/2/2009-IES (No. T-33/2009) dated 27th October, 2009.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 3rd December 2009

No. 22-16/2007-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 27/39/2009-EO(SM.I) dated 21st October, 2009, the President is pleased to relieve Ms. Vijaya Moorthy, IA&AS(78), Joint Secretary, National Commission for Women, Ministry of Women and Child Development with effect from the afternoon of 17th November, 2009.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 4th December 2009

No. 15-3/2005-Admn(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/44/2009-EO(SM.I) dated 23rd October, 2009, the President is pleased to appoint Shri Swarup Nandkeolyar, IA&AS (82) as Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 1st December, 2009 for the period upto 18th July, 2012 i.e., the date on which he would complete his combined deputation tenure of 7 years or until further orders, whichever is earlier.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 11th December 2009

No. PF-109/NIC/2009-Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri Subir Roy, Emp. Code : 109 from the post of Scientist-F, NIC - West Bengal State Unit, Kolkata from the forenoon of 30.11.2009 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Admn.I)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY  
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, The 4th December 2009

No. 16(4)/2008-PA(TA) —The President is pleased to appoint Shri D. Damodaran, Scientist 'D' in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- of this Directorate as Scientist 'E' in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from 9.11.2009 (FN) subject to the final outcome of Special Leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008.

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

No. 16(4)/2008-PA(TA) —The President is pleased to appoint Shri Debasish Jana, Scientist 'B' in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of this Directorate as Scientist 'C' in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 9.11.2009 (FN) subject to the final outcome of Special leave Petition filed by National Informatics Centre (NIC) in Supreme Court of India on a decision of the High Court of Orissa in W.P. (C) No. 7080 of 2005, Judgement delivered on 26.09.2008.

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th November 2009

No. ERB-I/2009/2/73 —The President is pleased to appoint Smt. Usha Mathur, HAG/IRAS, FA&CAO(C)/Northern Railway as Additional Member (Finance), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 01.11.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

The 8th December 2009

No. E(GP)/2007/3/2 —The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering

Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers, (IRSE) with effect from 21.04.2009, on the Railway mentioned as under :—

PANEL FOR 2008-2009

Name of the Officer

Central Railway

Shri M. K. Agrawal\*

\*Shri M. K. Agrawal would, however, be entitled to monetary benefits in Jr. Scale w.e.f. 26.11.2009 only.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

The 11th December 2009

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.11.2009 :—

1. Shri S. K. Kartar, Dy. Director (OL)
2. Shri C. S. Batra, Section Officer
3. Shri Rameshwar Thakur, Section Officer
4. Smt. Vijay Chadha, Section Officer

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 25th November 2009

No. A-32014/1/2009-E.I.(B)—Consequent on inclusion of her name in the Select List of 2006 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/12/2008-CS.II dated 3.9.2009, the President is pleased to appoint Smt. Vishwa Ailawadi, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Tribal Affairs as Private Secretary on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 17.11.2009 (FN).

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 9th December 2009

No. 23/2009 (F. No. A-32013/3/2008-Adm.I).—The President is pleased to appoint the following officers of the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service to the Senior Administrative Grade (Chief Engineer/Member Secretary [Regional Power Committee]/Secretary, Central Electricity Board) of the same Service, in the pre-revised scale of pay of Rs. 18,400—500—22,400/- in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity,

with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Neerja Mathur	31st August, 2009(FN)
2.	S. K. Kaul	31st August, 2009(FN)
3.	Major Singh	31st August, 2009(FN)
4.	Rajinder Pershad	31st August, 2009(FN)
5.	A. K. Rampal	31st August, 2009(FN)
6.	R. K. Rustagi	31st August, 2009(FN)
7.	K. N. Garg	31st August, 2009(FN)
8.	B. K. Jain	31st August, 2009(FN)
9.	N. C. Jain	1st December, 2009(FN)
10.	P. Raut	1st December, 2009(FN)

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 10th December 2009

No. 24/2009 (File No. A-38012/1/2008-Adm.I).—Shri D. S. Arora, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th November, 2009, on attaining the age of superannuation.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th December 2009

No. 38/09 (F.No. 2/11/2009-Adm.II).—The President is pleased to appoint Shri Medithi Ravi Kanth, IAS(KL : 1986), as Joint Secretary in the Ministry of Power, in the Pay Band of Rs. 37,400/- 67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from the forenoon of the 9th December, 2009 for the balance period of his Central tenure upto 20.06.2012 or until further orders, whichever is earlier.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 16th December 2009

No. 39/2009 (F.No. 2/13/2009-Adm.II).—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, IAS(NL : 1976), Additional Secretary, Ministry of Power as Special Secretary in the Ministry of Power, with effect from the forenoon of the 24th November, 2009.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th November 2009

No. A-32013/3/2009-Adm.I.—Consequent upon their inclusion in the Select List of 2003 for the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS), as per orders contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint the following officers of this Ministry to the Grade-I of CSS on regular basis in the Select List year 2003 :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.	Deemed date of appointment/ Actual date of appointment	Remarks
1	2	3	4	5
	S/Sh./Smt.			
1.	Joginder Singh Dua	4187	01.07.2003/ 29.09.1999	Retired on 31.03.2008
2.	Nand Lal Upadhyaya	4205	01.07.2003/ 20.08.1999	Retired on 30.11.2008
3.	W. N. Massey	4229	01.07.2003/ 20.08.1999	
4.	R. S. Phogat	4251	01.07.2003/ 20.08.1999	
5.	P. K. Verma	4285	01.07.2003/ 16.09.1999	
6.	Lila Chandran	4302	01.07.2003/ 20.08.1999	
7.	V. P. Gupta	4307	01.07.2003/ 20.08.1999	Expired on 28.02.2009
8.	Som Nath Gupta	4332	01.07.2003/ 20.08.1999	On deputation with IDA
9.	Mrinal Roy Choudhary	4407	01.07.2003/ 20.08.1999	On deputation with Wage Board, M/o Labour
10.	Gulshan Lal	4516	01.07.2003/ 20.08.1999	
11.	O. P. Dogra	4534	01.07.2003/ 31.08.1999	
12.	John Mathew	4541	01.07.2003/ 20.08.1999	
13.	Melvin Martin	4546	01.07.2003/ 20.08.1999	
14.	G. H. Ratna	4553	01.07.2003/ 20.08.1999	
15.	K. Ramachandran	4593	01.07.2003/ 20.08.1999	
16.	U. Viswanandham	4631	01.07.2003/ 20.08.1999	
17.	Lajpat Rai Gupta	4697	01.07.2003/ 28.06.2000	
18.	K. L. Bhatia	4723	01.07.2003/ 20.08.1999	
19.	N. T. Joseph	4790	01.07.2003/ 20.08.1999	
20.	Bimal Kujur	5019	01.07.2003/ 20.08.1999	
21.	Saroj Jaisia	5023	01.07.2003/ 20.08.1999	

1	2	3	4	5
	S/Sh./Smt			
22	Anil Kumar	5065	01.07.2003/ 29.03.2001	
23	Manish Bajaj	5106	01.07.2003/ 19.07.2005	
24	Ashok Kumar	5404	01.07.2003/ 24.08.2005	
25	Suresh Chandra	5500	01.07.2003/ 31.10.2005	
26	James Vanlalhir	5548	01.07.2003/ 20.08.1999	
27	S. L. Meena	5739	01.07.2003/ 16.04.2004	
28	R. P. Meena	5740	01.07.2003/ 16.04.2004	
29	V. K. Rajan	5821	01.07.2003/ 07.08.2007	
30	A. K. Das	5877	01.07.2003/ 16.07.2007	On Deputation with DDA
31	Surendra Singh	5926	01.07.2003/ 07.11.2007	
32	Surat Singh	6074	01.07.2003/ 21.01.2008	

2. The seniority of above officers included in the aforesaid Select List will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade I. The appointment of officers included in the aforesaid Select List, to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.2003 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

4. The above officers will be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary and entitled to exercise the benefit of option for fixation of pay under the provision of FR-22, within one month from date of issue of this Notification. However, such officers, who were promoted as adhoc Under Secretary prior 1st July of 2003 and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

The 1st December 2009

No. A-11019/1/2006-Admn-I(Pt.).—The President is pleased to appoint Shri M. E. Kutty, Senior Principal Private Secretary to the post of Principal Staff Officer (PSO) in CSSS cadre of this Ministry in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 87,00/- w.e.f. 28.10.2009 (F/N) and until further orders, in pursuance of DOPT's OM No. 20/51/2008-CS.II dated 28th October 2009.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Neerja Mathur	31st August, 2009(FN)
2.	S. K. Kaul	31st August, 2009(FN)
3.	Major Singh	31st August, 2009(FN)
4.	Rajinder Pershad	31st August, 2009(FN)
5.	A. K. Rampal	31st August, 2009(FN)
6.	R. K. Rustagi	31st August, 2009(FN)
7.	K. N. Garg	31st August, 2009(FN)
8.	B. K. Jain	31st August, 2009(FN)
9.	N. C. Jain	1st December, 2009(FN)
10.	P. Raut	1st December, 2009(FN)

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 10th December 2009

No. 24/2009 (File No.A-38012/1/2008-Adm.I).—Shri D. S. Arora, Chief Engineer, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th November, 2009, on attaining the age of superannuation.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th December 2009

No. 38/09 (F.No. 2/11/2009-Adm.II).—The President is pleased to appoint Shri Medithi Ravi Kanth, IAS(KL : 1986), as Joint Secretary in the Ministry of Power, in the Pay Band of Rs. 37,400- : 67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from the forenoon of the 9th December, 2009 for the balance period of his Central tenure upto 20.06.2012 or until further orders, whichever is earlier.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 16th December 2009

No. 39/2009 (F.No. 2/13/2009-Adm.II).—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, IAS(NI : 1976), Additional Secretary, Ministry of Power as Special Secretary in the Ministry of Power, with effect from the forenoon of the 24th November, 2009.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th November 2009

No. A-32013/3/2009-Admn.I.—Consequent upon their inclusion in the Select List of 2003 for the Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS), as per orders contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 5/16/2007-CS.I dated 25.08.2009, the President is pleased to appoint the following officers of this Ministry to the Grade-I of CSS on regular basis in the Select List year 2003 :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.	Deemed date of appointment/ Actual date of appointment	Remarks
1	2	3	4	5
	S/Sh./Smt.			
1.	Joginder Singh Dua	4187	01.07.2003/ 29.09.1999	Retired on 31.03.2008
2.	Nand Lal Upadhyaya	4205	01.07.2003/ 29.08.1999	Retired on 30.11.2008
3.	W. N. Massey	4229	01.07.2003/ 20.08.1999	
4.	R. S. Phogat	4251	01.07.2003/ 20.08.1999	
5.	P. K. Verma	4285	01.07.2003/ 16.09.1999	
6.	Lila Chandran	4302	01.07.2003/ 20.08.1999	
7.	V. P. Gupta	4307	01.07.2003/ 20.08.1999	Expired on 28.02.2009
8.	Som Nath Gupta	4332	01.07.2003/ 20.08.1999	On deputation with DDA
9.	Mrinal Roy Choudhary	4407	01.07.2003/ 20.08.1999	On deputation with Wage Board, M/o Labour
10.	Gulshan Lal	4516	01.07.2003/ 20.08.1999	
11.	G. P. Dogra	4534	01.07.2003/ 31.08.1999	
12.	John Mathew	4541	01.07.2003/ 20.08.1999	
13.	Melvin Martin	4546	01.07.2003/ 20.08.1999	
14.	G. H. Ratra	4553	01.07.2003/ 20.08.1999	
15.	K. Ramachandran	4593	01.07.2003/ 20.08.1999	
16.	U. Viswanandham	4631	01.07.2003/ 20.08.1999	
17.	Lajpat Rai Gupta	4697	01.07.2003/ 28.06.2000	
18.	K. L. Bhatia	4723	01.07.2003/ 20.08.1999	
19.	N. T. Joseph	4790	01.07.2003/ 20.08.1999	
20.	Bimal Kujur	5019	01.07.2003/ 20.08.1999	
21.	Saroj Jaisia	5023	01.07.2003/ 20.08.1999	

1	2	3	4	5
	S/Sh. Smt			
22	Anil Kumar	5065	01.07.2003/ 29.03.2001	
23	Manish Bajaj	5106	01.07.2003/ 19.07.2005	
24	Ashok Kumar	5404	01.07.2003/ 24.08.2005	
25	Suresh Chandra	5506	01.07.2003/ 31.10.2005	
26	James Vantahlir	5548	01.07.2003/ 20.08.1999	
27	S. L. Meena	5739	01.07.2003/ 16.04.2004	
28	R. P. Meena	5740	01.07.2003/ 16.04.2004	
29	V. K. Rajan	5871	01.07.2003/ 07.08.2007	
30	A. K. Das	5877	01.07.2003/ 16.07.2007	On Deputation with DDA
31	Surendra Singh	5926	01.07.2003/ 07.11.2007	
32	Surat Singh	6074	01.07.2003/ 21.01.2008	

2. The seniority of above officers included in the aforesaid Select List will be in the same order in which their names have been arranged, irrespective of actual dates of their appointment to the Grade I. The appointment of officers included in the aforesaid Select List, to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in the CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

3. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.2003 for the purpose of apporved service and for fixation of pay as Under Secretary on notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the grade of Under Secretary of CSS.

4. The above officers will be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the dates of their actual appointment to the post of Under Secretary and entitled to exercise the benefit of option for fixation of pay under the provision of FR-22, within one month from date of issue of this Notification. However, such officers, who were promoted as adhoc Under Secretary prior 1st July of 2003 and had availed the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

The 1st December 2009

No. A-11019/1/2006-Admn-I(Pt.).—The President is pleased to appoint Shri M. E. Kuty, Senior Principal Private Secretary to the post of Principal Staff Officer (PSO) in CSSS cadre of this Ministry in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 87,00/- w.e.f. 28.10.2009 (F/N) and until further orders, in pursuance of DOPT's OM No. 20/51/2008-CS.II dated 28th October 2009.

K. G. MOHANTA, Under Secy.